

#shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 13 -09- 2022

थाना मदनापुर पुलिस ने नकब लगाकर चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा,

07 शातिर नकबजन गिरफ्तार, अवैध असलहा सहित आलानकब,मोबाइल आदि बरामद।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र , मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये अपराधियों , वाछित एवं वारंटी, अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में श्री संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं श्री अमित चौरसिया, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में थाना मदनापुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

*दिनांक 12/13.09.22 की देर रात्रि को थानाध्यक्ष मदनापुर श्री वकार अहमद के नेतृत्व में थाना मदनापुर पुलिस द्वारा सूचना मुखबिरी व सर्विलांस के आधार पर **समय करीब 00.20 बजे रोसर कोठी (खण्डहर) बहद ग्राम चन्दोखा से डकैती/चोरी की योजना बनाते हुये 07 अभियुक्तगण** 1. तेज सिंह उर्फ तेजा 2. वेदपाल 3. अशोक उर्फ टूडी 4 लल्लू उर्फ प्रताप 5. वीरपाल 6. गंगा 7. भूपराम को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व तीन अदद नाजायज चाकू व दो अदद आलानकब व तीन अदद मोबाइल फोन व एक बैग बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।*

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. तेज सिंह उर्फ तेजा पुत्र टोहरी निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।
2. वेदपाल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जिला शाहजहाँपुर।
3. अशोक उर्फ टूडी पुत्र बलीराम निवासी ग्राम मिल्किया थाना निगोही जिला शाहजहाँपुर।
4. लल्लू उर्फ प्रताप पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम रमपुरा थाना पसंगवा जनपद लखीमपुर खीरी।
5. वीरपाल पुत्र कल्लू निवासी ग्राम ढोलनपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर वर्तमान में ज्योति हॉल पुल के नीचे थाना गजरौला जनपद अमरोहा।
6. गंगा पुत्र गिरधान निवासी ग्राम रमपुरा थाना पसगवां जनपद लखीमपुर खीरी।
7. भूपराम पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम राऊतपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर
2. तीन अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. तीन अदद नाजायज चाकू
4. दो अदद आलानकब (लोहे की सरिया)
5. तीन अदद मोबाइल फोन
6. एक बैग

विवरण पूछताछ:-

पूछताछ पर अभियुक्तगणों ने बताया कि साहब हम चोरी व लूट करने के अभ्यस्त हैं हम लोग रात्रि के समय में मकान/दुकान में नकब लगाकर व ताला तोड़कर चोरी करते हैं। हम लोग पैसंजर ट्रेन से अपने पूरे परिवार के साथ चलते हैं तथा अपने परिवार को रेलवे स्टेशन के आस पास ही रोक देते हैं और दिन में निकल कर कस्बों में स्थित सूनार (ज्वैलर्स) के घरों व दुकानों को टारगेट बनाते हैं तथा रात्रि में चोरी व डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और दूसरे दिन फिर पैसंजर ट्रेन से अगले स्टेशन पर चल देते हैं डकैती व चोरी से जो समान मिलता है उसे बेचकर रुपया आपस में बराबर -2 बाट लेते हैं। **दिनांक 7/09/2022** को हम लोगो ने जनपद बलिया के थाना भीमपुरा क्षेत्र में एक सुनार के घर में बनी दुकान का शटर तोड़कर घटना को अंजाम दे रहे थे तो वहां आस पास के लोग जाग गये थे लोगो के जाग जाने पर हम लोग वहाँ से चले आये थे। आज हम लोग मदनापुर में घटना को अंजाम देने आये थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया है।

पंजीकृत अभियोग:-

- 1- मु0अ0सं0 507/22 धारा 399/402 भादवि बनाम तेज सिंह उर्फ तेजा आदि 07 नफर उपरोक्त
- 2- मु0अ0सं0 508/22 धारा 3/25 A.Act बनाम तेज सिंह उर्फ तेजा उपरोक्त
- 3- मु0अ0सं0 509/22 धारा 4/25 A. Act बनाम वेदपाल उपरोक्त
- 4- मु0अ0सं0 510/22 धारा 4/25 A. Act बनाम अशोक उर्फ टूडी उपरोक्त
- 5- मु0अ0सं0 511/22 धारा 4/25 A. Act बनाम लल्लू उर्फ प्रताप उपरोक्त

अपराधिक इतिहास अभियुक्त तेज सिंह उर्फ तेजा पुत्र टोहरी उपरोक्त

क्र0स0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	507/22	399/402 भादवि	मदनापुर	शाहजहाँपुर
2	508/22	3/25 A.Act	मदनापुर	शाहजहाँपुर
3	12/18	457/380 भादवि	महमूदाबाद	सीतापुर
4	24/18	307 IPC (पुलिस मुठभेड)	महमूदाबाद	सीतापुर
5	25/18	25(1-B) A.Act	महमूदाबाद	सीतापुर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री वकार अहमद थाना मदनापुर शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्र थाना मदनापुर
3. उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 कुलदीप थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 अमन थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 अमन थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर
7. का0 मोहित भाटी थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर
8. का0 अक्षय थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर
9. का0 राहुल मलिक थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर
10. का0 दिवाकर थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर
11. का0 अजय चौधरी सर्विलांस सैल शाहजहाँपुर
12. का0 संजीव सर्विलांस सैल शाहजहाँपुर